



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, मेट्रो रेल (संकर्मों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय की तारीख 16 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2625 (अ) द्वारा तारीख 16 अक्टूबर, 2009 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) हेतु उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने की अवधि बढ़ायी थी।


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में द्रुत मेट्रो गुडगांव के संबंध में सिकंदरपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक द्रुत मेट्रो रेल के निम्नलिखित मेट्रो एलाइनमेंट को जोड़ती है, अर्थात:-

सिकंदरपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक द्रुत मेट्रो	:	यह एलाइनमेंट लूप के आकार का है जो मार्ग सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन फेज- II-बेल्वेडोरे टॉवर- साइबर सिटी- मौलसारी एवेन्यू- डिपो सह ओसीसी-फेज III-फेज II तथा सिकंदरपुर के साथ-साथ गुजरता है।
कार्यशाला सह प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (ओसीसी)	:	“ डीएलएफ फेज-III में, मौलसारी एवेन्यू और फेज-III के मध्य”

[फा. सं. के-14011/23/2016-एमआरटीएस-II]

दीन दयाल, अवर सचिव

सिकंदरपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 तक द्रुत मेट्रो



MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017

S.O. 199(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) (herein after referred to as the said Act), the Central Government had extended the application of the provisions of the said Act to the National Capital Region (NCR), with effect from the 16th day of October, 2009 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development, number S.O. 2625 (E), dated the 16th October, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2017

का.आ. 200(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने मेट्रो रेल (संकर्मी का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (इसके पश्चात इसे उपरोक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित किया जाएगा) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2625 (अ) के तहत 16 अक्टूबर, 2009 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) हेतु उपरोक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने की अवधि बढ़ायी थी।


अतः अब केन्द्र सरकार एतद्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में द्रुत मेट्रो गुडगांव के लिए सिकंदरपुर से सेक्टर-56 तक द्रुत मेट्रो दक्षिण एलाइनमेंट के निम्नलिखित मेट्रो एलाइनमेंट को शामिल करती है, नामतः:-

सिकंदरपुर से सेक्टर-56 तक द्रुत मेट्रो दक्षिण एलाइनमेंट	:	यह एलाइनमेंट वर्तमान सिकंदरपुर स्टेशन चरण-1-सेक्टर-42-43-सेक्टर-53-54-सेक्टर-55-सेक्टर-56 से प्रारंभ होता है।
कार्यशाला एवं डिपो	:	“सेक्टर 53”

[फा. सं. के-14011/23/2016-एमआरटीएस-II]

दीन दयाल, अवर सचिव

सिकंदरपुर से सेक्टर-56 तक द्रुत मेट्रो दक्षिण एलाइनमेंट



NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2017

S.O. 200(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) (herein after referred to as the said Act), the Central Government had extended the application of the provisions of the said Act to the National Capital Region (NCR), with effect from the 16th day of October, 2009 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development, number S.O. 2625 (E), dated the 16th October, 2009.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 32 of the said Act, the Central Government hereby adds the following metro alignments of Rapid Metro South Alignment from Sikanderpur to Sector-56 in respect of the Rapid Metro Gurgaon in the Schedule to the said Act, namely:-

Rapid Metro South Alignment from Sikanderpur to Sector-56	Alignment starts from existing Sikanderpur Station- Phase I- Sector 42-43- Sector 53-54- Sector 55- Sector 56.
Workshop cum Depot:	“Sector 53”

[F. No. K-14011/23/2016-MRTS-II]

DEEN DAYAL, Under Secy.

Rapid Metro South Alignment from Sikanderpur to Sector-56